



GLOBALG.A.P.



**पहले खाद्य
सुरक्षा**

उत्पाद सुरक्षा आश्वासन मानक

उन विशेष क्षेत्रों के लिए डिज़ाइन किया हुआ जहां पर उत्पादकों और उनके ग्राहकों को केवल एक खाद्य सुरक्षा समाधान की जरूरत है, नया उत्पाद सुरक्षा आश्वासन मानक V5, GLOBALG.A.P. एकीकृत फार्म आश्वासन (IFA) मानक का एक सबसेट है और इसमें केवल खाद्य सुरक्षा तत्व शामिल हैं।

GLOBALG.A.P. उत्पाद सुरक्षा आश्वासन मानक, किसी उत्पाद की संपूर्ण कृषि उत्पादन प्रक्रिया, पौधे के जमीन में लगाए जाने से लेकर (उत्पत्ति और प्रसार सामग्री नियंत्रण बिंदु) से लेकर पैकेजिंग तक के समस्त खाद्य सुरक्षा तत्वों का प्रमाणन कवर करता है।

उत्पाद सुरक्षा आश्वासन मानक, उत्पादकों को अनेक लाभों की पेशकश करता है:

1. राष्ट्रीय और क्षेत्रीय फार्म आश्वासन योजनाओं के विकास और पालन को प्रोत्साहित करके यह प्राथमिक उत्पादन में खाद्य सुरक्षा जोखिमों को कम करता है, जिसमें ग्राहक और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला दोनों की सेवा करने वाला, HACCP (खतरा विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु) पर आधारित एक स्पष्ट जोखिम-आंकलन किया हुआ संदर्भ मानक शामिल होता है।
2. ऑडिटर दक्षता, सत्यापन स्थिति, रिपोर्टिंग, और अनुपालन मानदंड की व्याख्या के सामंजस्य के आम स्तर को निर्धारित व लागू करके, यह सत्यनिष्ठा को बढ़ाता है।


भविष्य में विभिन्न मॉड्यूलों को जोड़ कर, उत्पादकों के पास धीरे-धीरे GLOBALG.A.P. IFA प्रमाणन स्तर तक पहुंचने का अवसर होगा।




उत्पाद सुरक्षा आश्वासन मानक और IFA मानक के बीच मुख्य अंतर

खाद्य सुरक्षा नियंत्रण बिंदु और अनुपालन मानदंड जो खाद्य सुरक्षा आश्वासन मानक का निर्माण करते हैं, मूल रूप से IFA मानक का एक सबसेट होते हैं। वे केवल कृषि उत्पादन के खाद्य सुरक्षा पहलुओं को ही कवर करते हैं। उत्पाद सुरक्षा आश्वासन मानक, IFA को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। हालांकि, अंततः IFA प्रमाणन हासिल करने के लिए धीरे-धीरे तंत्र और प्रणाली को विकसित करने के लिए यह एक शुरुआती बिंदु के रूप में काम कर सकता है।

एकीकृत फार्म आश्वासन मानक फल और सब्जियाँ कुल नियंत्रण अंक: 221



उत्पाद सुरक्षा आश्वासन मानक कुल नियंत्रण अंक: 141



एकीकृत फार्म आश्वासन मानक

ISO/IEC 17065 के आधार पर GLOBALG.A.P. प्राथमिक उत्पादन प्रक्रियाओं के स्वतंत्र, स्थापित तृतीय-पक्ष प्रमाणन के लिए मानक व फ्रेमवर्क प्रदान करता है। उत्पादन प्रक्रिया का प्रमाणन यह सुनिश्चित करता है कि केवल GLOBALG.A.P. प्रामाणिक दस्तावेजों में निर्धारित स्थापित अच्छी कृषि पद्धतियों (G.A.P.) के अनुपालन के एक नियत स्तर तक पहुंचने वाले ही प्रमाणित किए जाएं। ऑन-फार्म उत्पादन प्रक्रियाओं के प्रमाणन, GLOBALG.A.P. प्रामाणिक दस्तावेजों में निर्धारित स्थापित अच्छी कृषि पद्धतियों के साथ अनुपालन को सुनिश्चित करता है।

फलों व सब्जियों के लिए
**GLOBALG.A.P. IFA मानक का
GFSI मानकीकरण जरूरतों के सापेक्ष
सफलतापूर्वक आंकलन किया गया है
और इसने स्कोप BI - पौधों की फार्मिंग
के लिए और स्कोप D - पौध उत्पादों की
पूर्व-प्रक्रिया रखरखाव के लिए GFSI
मान्यता को हासिल कर लिया है।**

IFA, कृषि, एक्वाकल्चर, लाइव स्टॉक, और हॉर्टिकल्चर उत्पादन के लिए अच्छी कृषि पद्धतियों को कवर करता है। यह मानक एक व्यापक स्टैकहोल्डर्स को शामिल करने व उनसे चर्चा करके संशोधित किया गया था, और IFA का संस्करण 5 जुलाई 2015 में प्रकाशित किया गया था।
www.globalgap.org/ifa पर अधिक जानें



GLOBALG.A.P. ऐड-ऑन

GLOBALG.A.P. ऐसे ऐड-ऑन की एक श्रंखला को पेश करता है जो कृषि उत्पादन प्रक्रियाओं और आपूर्ति श्रंखला के विशिष्ट पहलुओं को कवर करने वाले GLOBALG.A.P. प्रमाणन की वृद्धि करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इनमें शामिल हैं जैसे, GRASP - सामाजिक पद्धतियों के लिए GLOBALG.A.P., लाइवस्टॉक उत्पादकों के लिए पशु कल्याण ऐड-ऑन, SPRING - सिंचन और भूजल उपयोग के लिए टिकाऊ प्रोग्राम, और एक्वाकल्चर और लाइवस्टॉक के लिए NON-GM/ "Ohne GenTechnik" ऐड-ऑन।

GLOBALG.A.P.+ ऐड-ऑन, मेंबरों को GLOBALG.A.P. की पेशकश वाली सर्वश्रेष्ठ प्रमाणन विकास विशेषज्ञता पर आधारित अनुकूलित समाधान का विकास करने के लिए एक प्रोग्राम भी पेश करता है। www.globalgap.org/addon पर अधिक जानें

